



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

सं० 438]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 1979/ कार्तिक 7, 1901

No. 438]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1979

आय-कर

का० प्रा० 609(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (सातवां संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. आय कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,

(क) प्ररूप 36 में, टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए, या, यदि अपील किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष

काइल की जाती है जो आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो, अपीलार्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखी जानी चाहिए और उसमें, अपील-आधारों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन बिना किसी तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।” ;

(ख) प्ररूप सं० 36क में, टिप्पण के 2 स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा अर्थात् :—

“2. प्रत्याक्षेप का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए, या, यदि ज्ञापन किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष काइल किया जाता है जो आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो प्रत्यक्षी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें प्रत्याक्षेपों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन बिना तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे प्रत्याक्षेपों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।” ;

(ग) प्ररूप सं० 37व में, टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए या, यदि अपील किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष फाइल की जाती है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के समाप्ति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो अपीलार्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखी जानी चाहिए और उसमें अपील अधिकारों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन, बिना तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।”

[सं० 3048/फा० सं० 143/4/78-टी० पी० एल०]

एस० एन० शिन्दे, सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

### MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Direct Taxes)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1979

### INCOME-TAX

**S.O. 609(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

2. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in Form No. 36, for Note 3 the following Note shall be substituted, namely :—

“3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.”;

(b) in Form No. 36A, for Note 2, the following Note shall be substituted, namely :—

“2. The memorandum of cross-objections should be written in English or, if the memorandum is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the respondent, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the cross-objections without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively.”;

(c) in Form No. 37F, for Note 3, the following Note shall be substituted, namely :—

3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.”.

[No. 3048/F. No. 143(4)/78-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.  
Central Board of Direct Taxes